

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 605]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 28, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1533.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, मूंदी, जिला खण्डवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, मूंदी, जिला खण्डवा.	अध्यक्ष	-	-	संतोष राठौर	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	अनिता सुरेश श्रीवास्तव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	अनिल गोविन्द प्रजापती	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	अयूब मंसूरी मिस्त्री	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	जब्बार मन्सूरी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	चुन्नीलाल गोड़बैडी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सरिताबाई आशीष कुमार (गुड्डू)	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	प्रमिला माखनलाल राठौर	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	नगर परिषद्, मूंदी, जिला खण्डवा.	पार्षद	8	आठ	सखाराम पिता उमराव निमोले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	अनिता अनिल मालविया	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	अजय सुरेशचन्द्र राठौर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	सरोज बाई अशोक भगत	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	साहूबाई पति गणेश	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रेखा सुन्दरलाल वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अजय सिंह मण्डलोई	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	खुश्यालीबाई पति राजेन्द्र ठेकेदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1534.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, पंधाना, जिला खण्डवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, पंधाना जिला खण्डवा.	अध्यक्ष	-	-	परमानंद श्रीराम कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	शबाना बी ईदरिश खां	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	दिलीप सोनी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	राजेन्द्रसिंह मदनसिंह	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	फुलवन्ती देवराम	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	अमजद कादरी हाजी सुल्तान	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	शकीलाबी अफजल दिवानजी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सुमैया बी मुबारिक खां	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	जगदीश गणपत	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	धरमसिंह (धर्मेन्द्र पायलेट)	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	किरण बाला छन्नुलाल गंगराडे	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	नगर परिषद्, पंधाना जिला खण्डवा.	पार्षद	11	ग्यारह	मुकेश प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	रुखमणी बाई रमेशचन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	पवन रुखडु गोलकार	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सुकमा रमेश	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कलाबाई लालचंद खेरदे	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1535.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, देवरी, जिला सागर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, देवरी, जिला सागर.	अध्यक्ष	-	-	मयंक चौरसिया	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	रूबी/नईमउद्दीन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	प्रकाश अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	अनीषा w/o रहीस खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	संतोष रानी पति प्रमोद जैन	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	पं. सुरेन्द्र वैरागी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	पं. आशीष/सत्यनारायण गुरु	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	मालती/मुकेश कोष्टी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	संजना (प्रभा) पति संजय चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति रीना/मनीष बडेरिया	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	राकेश चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	पूरन लाल रजक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	अमित सिंह (शालू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	प्रेमनारायण (कलू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	नगरपालिका परिषद्, देवरी, जिला सागर.	पार्षद	14	चौदह	माया हरिशंकर	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	द्रोपती/अनन्तराम	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1536.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, गढाकोटा, जिला सागर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, गढाकोटा, जिला सागर.	अध्यक्ष	-	-	भरत चौरसिया (पंडा)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	सलीमन याकूब	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	शीला पति लछमन	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	लक्ष्मी पति रुपेश	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शिवदास अहिरवार (शिबु) पिता रामचरण.	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	संतोष रानी पति दौलतराम	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मनोज पिता देवेन्द	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	महेश सिंह पिता जगतसिंह	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	सुनीता पति रामकुमार	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	गोमती पति जगदीश	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	गोविंद पिता पंचम	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रिषभ कुमार जैन (कल्लू उस्ताज)	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सुषमा पति अशोककुमार	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	अपसाना पति शेखशबीर	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	दिनेश पिता श्यामलाल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	दीनदयाल पटेल	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	शहनाज बी मुह. रसीद	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	नगरपालिका परिषद्, गढाकोटा, जिला सागर.	पार्षद	17	सत्रह	पुरुषोत्तम पिता कन्हीयालाल	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	विपिन रिछारिया	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1537.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, रहली, जिला सागर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, रहली, जिला सागर.	अध्यक्ष	-	-	रेखा बृजेश (पप्पू) हजारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	अशोकरानी पति रमेश अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	प्रथमसिंह पिता विशाल सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	भागबल सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	श्रीमति कविता/ महादेव साहू	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	राजकुमार अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	शरीफ/ नजीर खां	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	श्रीमति अंतिम/ मनोज जैन "भूरे"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमति सपना/ महेश कुमार साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति आरती दीपक शुक्ला "कन्हैया"	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	श्रीमति चंदा/नीरज पटैल	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	डेलनसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति सुमन/ खिलान खटीक	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	मयंक/ आनंद खरे	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	कुंज विहारी पटैल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	तारारानी पति राजाराम यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1538.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, बीना-इटावा, जिला सागर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल	क्रमांक केवल	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	पाषद हेतु	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, बीना-इटावा, जिला सागर.	अध्यक्ष	-	-	नीतू सुनील राय	भारतीय जनता पार्टी
2		पाषद	1	एक	संजय सिंह एडव्होकेट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पाषद	2	दो	श्रीमति चंदा हरिनारायण चढार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पाषद	3	तीन	मधुर ठाकुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पाषद	4	चार	डॉ. नरेन्द्र ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
6		पाषद	5	पांच	श्रीमति उषा नीरज तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
7		पाषद	6	छः	श्रीमति अभिलाषा पुष्पराज बिलगैया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पाषद	7	सात	अजय ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
9		पाषद	8	आठ	सुनीता बलराम राय	निर्दलीय
10		पाषद	9	नौ	भूपेन्द्र सिंह ठाकुर (एड.)	भारतीय जनता पार्टी
11		पाषद	10	दस	श्रीमति लीलाबाई रजक	निर्दलीय
12		पाषद	11	ग्यारह	श्रीमति गोकल इन्दरसिंह ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
13		पाषद	12	बारह	अभिषेक विलगैया "रिंकु"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पाषद	13	तेरह	श्रीमति कृष्णा कुशवाहा संतोष सिंह	भारतीय जनता पार्टी
15		पाषद	14	चौदह	परमानंद ग्वाल	निर्दलीय
16		पाषद	15	पन्द्रह	सेवाराम राय	भारतीय जनता पार्टी
17		पाषद	16	सोलह	वीरेन्द्र जेन (होटल)	भारतीय जनता पार्टी
18		पाषद	17	सत्रह	श्रीमति कमलेश चिमनलाल नागपाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19		पाषद	18	अठारह	श्रीमति विमलेश अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पाषद	19	उन्नीस	संजू सरमन राय	भारतीय जनता पार्टी
21		पाषद	20	बीस	रचना विनय काशिव	भारतीय जनता पार्टी
22		पाषद	21	इक्कीस	प्रकाश अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23		पाषद	22	बाईस	कृष्णा राय	भारतीय जनता पार्टी
24		पाषद	23	तेईस	बबीता राजीव यादव	भारतीय जनता पार्टी
25		पाषद	24	चौबीस	अलका मनोज शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
26		पाषद	25	पच्चीस	अविनाश जितेन्द्र यादव	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1539.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, खुरई, जिला सागर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगरपालिका परिषद्, खुरई, जिला सागर.	अध्यक्ष	-	-	इन्द्र कुमार पिता हीरालाल राय (खंगार).	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	विनीता सतीश जैन	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	आकाश	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	अजीतसिंह अजमानी (नीटू)	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	रामवती/ प्राणसिंह	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	हरीराम अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	पियूस	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सुषमा गुंसाई पति श्री संतोष गुसाई (मुनीम).	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	राजेश कुमार मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	प्रहलादसिंह उर्फ कैलाश	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	लक्ष्मी/ देशराजसिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अफजल तनय अल्फू	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	सविता पति अनिलसिंह	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	कीर्ति रविंद्र चौरसिया	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	आरती	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कुंवरसिंह (कमल कुर्मी)	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	रविंद्र चौरसिया	निर्दलीय
18		पार्षद	17	सत्रह	निर्मला कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	मधु/ शैलेंद्र	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	उर्मिला	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	श्रीमति भारती बाबूसिंह	निर्दलीय
22		पार्षद	21	इक्कीस	माया मंडल	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	मुकेश आदिवासी	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	विनोद वल्द श्री मन्लूलाल अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	राजेंद्रसिंह उर्फ कल्लू यादव	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	शीलाबाई पत्नी रमेश अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	राजकुमार घोषी	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	अनीता/ धर्मेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1540.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, शाहगढ़, जिला सागर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, शाहगढ़, जिला सागर.	अध्यक्ष	-	-	गोकल राय	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	देवकुमारी कौशल खटीक	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	झनकरानी/ भागीरथ यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	अनीता राजकुमार यादव	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	सरकल-गुजराल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	ममता जैन	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	रामस्वरूप सोनी "मुंडे"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	जयंत शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	रोशनी रिकू राजपूत	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	हेतराम खटीक	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	राधा बाई बाबूलाल अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुहागरानी भागीरथ साहू	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	विजय पाल सिघई	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	मुबीना बी रशीद खां	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	सलीम हैदर अली	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुरेन्द्र प्रताप सिंह (राजा भैया)	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1541.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, राहतगढ़, जिला सागर के माह दिसम्बर 2014

में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	नगर परिषद्, राहतगढ़, जिला सागर.	अध्यक्ष	-	-	-	नीरज शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक		नत्थीबाई/ हजारीलाल	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो		कृष्ण कुमार अग्रवाल (पप्पू कक्का)	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन		श्रीमति सरोज (डी.सी. जैन)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार		जीवनलाल	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच		समीना युसुफ बाखर बाले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः		प्रमोद राय	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात		श्रीमति कल्पना/ सुरेन्द्र चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ		आयशा शकील शाह	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ		फहीम पल्लेदार	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस		रुस्तम शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह		तहसीम बी मुन्ना कुरैशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह		सलाम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह		“वर्षा पुष्पेद्र”	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह		रहूफ मुण्डा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह		सीता नन्दकिशोर भारती	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1542.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, शाहपुर, जिला सागर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	नगर परिषद्, शाहपुर, जिला सागर.	अध्यक्ष	-	-	-	श्रीमति कीर्ति पति मनोज जैन	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक		जगत पिता तुलसी पटैल	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	नगर परिषद्, शाहपुर, जिला सागर.	पार्षद	2	दो	लाखन सिंह (गुड्डा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	गीतारानी चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	श्रीमति सुमतरानी पति पंचम पटैल	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	खेमचंद पटैल	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सावित्री पति गोपाल	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	शिवराज पिता नत्थू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	चंचल कुमार प्रकाशचंद (कल्लू)	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	रेखारानी पति सुखनंदन	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	कुसुमरानी पति रामसिंह लोधी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मुबीना बेगम पति आमीन अली	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	अजमेर सिंह पिता भगवान सिंह	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	पुष्पारानी पति रेवाराम	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	तुलसी गौंड	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सूरजबाई पति रामसींग लोधी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1543.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बंडा, जिला सागर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बंडा, जिला सागर.	अध्यक्ष	-	-	पूनम वैभवराज कुकरेले	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	राजेश जैन महावीर	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	स्नेहलता उमेश जैन	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	लक्ष्मी रामसींग लोधी	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	नगर परिषद्, बंडा, जिला सागर.	पार्षद	4	चार	रामसींग हल्के सींग लोधी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	अहिरवार सुषमा	बहुजन समाज पार्टी
7		पार्षद	6	छः	रमाकांती-हरनाम अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	अर्चना तिरलोक (सरकार)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	सुशीला यादव	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	फूलसिंह विश्वकर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	अहीर देवकुमार "जनता सेवा"	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	शिलोचना राजेंद्र सिंह	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	आशीष अग्निहोत्री (टीनू)	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति सरोज प्रेमचंद बरेठी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अनुरुद्ध सिंह "पन्ना" ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	महेन्द्र अहिरवार	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.